



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]  
No. 166]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल, 2, 2007/चैत्र 12, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 268(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (वर्ग “क” एवं वर्ग “ख” पद) भर्ती नियम, 1964 और जहाँ तक उनका संबंध आचार्य (जीव रसायन), सहायक आचार्य (जीव रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव रसायन) के पदों से है, को अधिक्रांत करते हुए, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में आचार्य (जीव रसायन), सहायक आचार्य (जीव रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, आचार्य (जीव रसायन), सहायक आचार्य (जीव रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव रसायन) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आचार्य (जैव रसायन)	(1) (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचितवर्गीय	14,300-400- 18,300 रु.	लागू नहीं होता	हां, परन्तु यह फायदा तब अनुज्ञेय नहीं होगा जब व्यक्ति सरकारी सेवा में 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद आया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जो सरकारी सेवा में दिनांक 31-12-2003 तक आ चुके हैं।	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पणी</b> :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
--	--	--------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)
<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन में विशेषज्ञता सहित रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।	आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : हां तथापि ये शैक्षिक अर्हताएं इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ष	संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) और प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(8)

(9)

(ii) जैव रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक/शिक्षण का बारह वर्ष का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य।

और

(ii) जैव रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक/शिक्षण का सात वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय**

1. जैव रसायन में अनुसंधान का अनुभव; या

2. अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

(14)

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सचिदा भी है ) और प्रोन्नति सहित :-**

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों—

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-  
(1) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय —अध्यक्ष

प्रत्येक अवसर पर उस पद पर नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या

(ii) मूल काडर या विभाग में 12,000-16,500 रु. या

(2) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं

(12)

समतुल्य वेतनभोगियों में नियमित आधार पर  
उस पद पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में  
5 वर्ष सेवा की हो।

(iii) मूल काडर या विभाग में 10,000-15,200 रु.  
के वेतनमान में या समतुल्य में नियमित आधार  
पर उस पद पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी  
में आठ वर्ष सेवा की हो।

(ख) स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक  
अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो।

2. 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में ऐसे विभागीय सहायक  
आचार्य (जीव रसायन) पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में  
10 वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ  
विचार किया जायेगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका  
चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा  
जायेगा।

**टिप्पण 1 :**—(पाठक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,  
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति  
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार  
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार  
किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

**टिप्पण 2:**—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत  
अल्पकालिक सर्वोदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार  
के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से  
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर  
प्रतिनियुक्ति सर्वोदा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से  
अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए  
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख  
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय—मदस्य  
(3) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी  
संस्थान, कानपुर —मदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक आचार्य (जीव रसायन) के आधार पर	01* (2007) *कार्यभार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325- 15,200 रु.	लागू नहीं होता	हां, परन्तु यह फायदा तब अनुज्ञेय नहीं होगा जब व्यक्ति सरकारी सेवा में 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद आया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जो सरकारी सेवा में दिनांक 31-12-2003 तक आ चुके हैं।	40 वर्ष से अधिक नहीं। <b>टिप्पण 1 :</b> —(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पणी 2 :</b> —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

(7)

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)	(9)	(10)	(11)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन में विशेषज्ञता सहित रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; और</p> <p>(ii) जैव रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक/शिक्षण का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य; और</p> <p>(ii) जैव रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक/शिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>(i) कार्बोहाइड्रेट रसायन में अनुसंधान का अनुभव, या</p> <p>(ii) अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हैं</p> <p>इन नियमों में अधिसूचना की तारीख को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) के पद को धारण करने वाले विद्यमान पदाधारियों को इस संबंध में लागू नहीं होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती किये जान वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ष।</p>	<p>संयुक्त पद्धति</p> <p>संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) और प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

**टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

1941 GI/01-2

(12)

(13)

(14)

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबिदा भी है ) और प्रोन्नति सहित :—

(1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8,000—13,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है; और

(ख) स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो ।

(2) 8,000-13,500 रु. के वेतनमान में ऐसे विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा । यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा ।

**टिप्पण 1:**—प्राप्त प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पॉसिबिलिटी में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसीप्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

**टिप्पण 2:**—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबिदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की सीमा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति प्रत्येक अवसर पर उस पद पर (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :  
(1) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -- अध्यक्ष  
(2) निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -- सदस्य  
(3) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर -- सदस्य

है ।  
आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन)	01*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13,500 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) <b>टिप्पण 1:</b> —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल

(7)

प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)	(11)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन में विशेषज्ञता सहित रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य और</p> <p>2. जैव रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक/शिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>1. कार्बोहाइड्रेट रसायन में अनुसंधान का अनुभव या</p> <p>2. अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b>अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2—</b>अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p><b>आयु :</b> नहीं</p> <p><b>शैक्षिक अर्हताएं :</b> हां</p> <p>इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) के पद को धारण करने वाले विद्यमान पदाधारियों को शैक्षिक अर्हता के संबंध में लागू नहीं होगी।</p>	<p>सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति एवं पदोन्नतिधारी के लिए एक वर्ष</p>	<p>संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) और प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p>

(12)	(13)	(14)
<p>प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है ) और प्रोन्नति सहित :-</p>	<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर उस पद पर नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>
<p>1. केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों :-</p>	<p>(1) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - अध्यक्ष</p>	<p></p>
<p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा</p>	<p>(2) निदेशक/उप-सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय--सदस्य</p>	<p></p>
<p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है; या</p>	<p>(3) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर -सदस्य</p>	<p></p>
<p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4500-7000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 13 वर्ष सेवा की है; और</p>	<p></p>	<p></p>
<p>(ख) स्तम्भ (ख) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो ।</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2. 4500-7000 रु. के वेतनमान में ऐसे विभागीय अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में 13 वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा । यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा ।</p>	<p></p>	<p></p>
<p><b>टिप्पण 1 :</b> पापक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की मांगी पापक में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p>	<p></p>	<p></p>
<p><b>टिप्पण 2 -</b> प्रतिनियुक्ति/सौविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सौविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p></p>	<p></p>

टिप्पण.—राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर समूह “क” और समूह “ख” पद भर्ती नियम, 1964 और भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1036 दिनांक 13 जुलाई, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् तृती सशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

1. सा.का.नि. 1150 तारीख 6 अगस्त, 1964.
2. सा.का.नि. 1364 तारीख 15 सितम्बर, 1964.
3. सा.का.नि. 1336 तारीख 23 सितम्बर, 1964.
4. सा.का.नि. 179 तारीख 21 जनवरी, 1965.
5. सा.का.नि. 306 तारीख 20 फरवरी, 1965.
6. सा.का.नि. 1279 तारीख 23 अगस्त, 1965.
7. सा.का.नि. 233 तारीख 4 फरवरी, 1966.
8. सा.का.नि. 234 तारीख 4 फरवरी, 1966.
9. सा.का.नि. 899 तारीख 3 जून, 1966.
10. सा.का.नि. 1745 तारीख 5 नवम्बर, 1966.
11. सा.का.नि. 1805 तारीख 16 नवम्बर, 1966.
12. सा.का.नि. 1140 तारीख 15 जुलाई, 1967.
13. सा.का.नि. 278 तारीख 10 फरवरी, 1971.
14. सा.का.नि. 640 तारीख 13 अप्रैल, 1971.
15. सा.का.नि. 925 तारीख 21 मई, 1971.
16. सा.का.नि. 1612 तारीख 7 दिसम्बर, 1971.
17. सा.का.नि. 85 तारीख 29 दिसम्बर, 1975.
18. सा.का.नि. 1755 तारीख 24 नवम्बर, 1976.
19. सा.का.नि. 79 तारीख 16 दिसम्बर, 1976.
20. सा.का.नि. 339 तारीख 25 फरवरी, 1977.
21. सा.का.नि. 1729 तारीख 14 दिसम्बर, 1977.
22. सा.का.नि. 523 तारीख 30 मार्च, 1978.
23. सा.का.नि. 566 तारीख 17 अप्रैल, 1978.
24. सा.का.नि. 567 तारीख 17 अप्रैल, 1978.
25. सा.का.नि. 1340 तारीख 21 अक्टूबर, 1978.
26. सा.का.नि. 149 तारीख 5 जनवरी, 1979.
27. सा.का.नि. 277 तारीख 5 फरवरी, 1979.
28. सा.का.नि. 278 तारीख 5 फरवरी, 1978.
29. सा.का.नि. 1472 तारीख 23 फरवरी 1979.
30. सा.का.नि. 389 तारीख 21 मार्च, 1980.
31. सा.का.नि. 390 तारीख 21 मार्च, 1980.
32. सा.का.नि. 1274 तारीख 26 नवम्बर, 1980.
33. सा.का.नि. 445 तारीख 20 अप्रैल, 1981.
34. सा.का.नि. 838 तारीख 25 अगस्त, 1981.
35. सा.का.नि. 969 तारीख 12 अक्टूबर, 1981.
36. सा.का.नि. 628 तारीख 1 जुलाई, 1982.
37. सा.का.नि. 279 तारीख 14 मार्च, 1983.
38. सा.का.नि. 524 तारीख 1 जुलाई, 1983.
39. सा.का.नि. 855 तारीख 5 नवम्बर, 1983.

40. सा.का.नि. 875 तारीख 8 नवम्बर, 1983.
41. सा.का.नि. 232 तारीख 18 फरवरी, 1984.
42. सा.का.नि. 489 तारीख 21 अप्रैल, 1984.
43. सा.का.नि. 825 तारीख 20 जुलाई, 1984.
44. सा.का.नि. 3 तारीख 20 नवम्बर, 1984.
45. सा.का.नि. 145 तारीख 22 जनवरी, 1985.
46. सा.का.नि. 65 तारीख 9 जनवरी, 1986.
47. सा.का.नि. 447 तारीख 22 मई, 1987.
48. सा.का.नि. 717 तारीख 16 सितम्बर, 1987.
49. सा.का.नि. 807 तारीख 14 अक्टूबर, 1987.
50. सा.का.नि. 152 तारीख 9 जनवरी, 1988.
51. सा.का.नि. 3 तारीख 22 दिसम्बर, 1988.
52. सा.का.नि. 741 तारीख 19 सितम्बर, 1989.
53. सा.का.नि. 288 तारीख 17 अप्रैल, 1990.
54. सा.का.नि. 200 तारीख 22 अप्रैल, 1992.
55. सा.का.नि. 623 तारीख 2 दिसम्बर, 1993.
56. सा.का.नि. 436 तारीख 8 अगस्त, 1994.
57. सा.का.नि. 648 तारीख 25 अक्टूबर, 1994.
58. सा.का.नि. 560 तारीख 25 अक्टूबर, 1994.
59. सा.का.नि. 561 तारीख 25 अक्टूबर, 1994.
60. सा.का.नि. 604 तारीख 17 नवम्बर, 1994.
61. सा.का.नि. 6 तारीख 21 दिसम्बर, 1994.
62. सा.का.नि. 66 तारीख 30 दिसम्बर, 1994.
63. सा.का.नि. 67 तारीख 30 दिसम्बर, 1994.
64. सा.का.नि. 58 तारीख 24 जनवरी, 1995.
65. सा.का.नि. 444 तारीख 15 सितम्बर, 1995.
66. सा.का.नि. 578 तारीख 14 दिसम्बर, 1994.
67. सा.का.नि. 184 तारीख 2 अप्रैल, 1996.
68. सा.का.नि. 303 तारीख 1 जुलाई, 1996.
69. सा.का.नि. 337 तारीख 22 जुलाई, 1996.
70. सा.का.नि. 445 तारीख 30 सितम्बर, 1996.
71. सा.का.नि. 515 तारीख 6 नवम्बर, 1996.
72. सा.का.नि. 584 तारीख 11 दिसम्बर, 1996.
73. सा.का.नि. 138 तारीख 25 जून, 1996.
74. सा.का.नि. 205 तारीख 15 अक्टूबर, 1998.
75. सा.का.नि. 635 तारीख 30 अगस्त, 2001.
76. सा.का.नि. 79 तारीख 4 फरवरी, 2002.
77. सा.का.नि. 404 तारीख 3 जून, 2002.
78. सा.का.नि. 683 तारीख 25 अगस्त, 2003.
79. सा.का.नि. 209(अ) तारीख 10 मार्च, 2003.
80. सा.का.नि. 234 तारीख 30 मई, 2003.
81. सा.का.नि. 574(अ) तारीख 8 सितम्बर, 2004.
82. सा.का.नि. 407(अ) तारीख 14 जून, 2005.
83. सा.का.नि. 722(अ) 14 दिसम्बर, 2005.
84. सा.का.नि. 326(अ) तारीख 26 मई, 2006.

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

**G.S.R. 268(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Professor (Bio-Chemistry), Assistant Professor (Bio-Chemistry) and Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Bio-Chemistry), Assistant Professor (Bio-Chemistry) and Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Bio-Chemistry), Assistant Professor (Bio-Chemistry) and Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Professor (Bio-Chemistry)	01* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Services Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14300-400-18300	Not applicable	Yes, but the benefit will be admissible to the employees who entered into Government service on or before 31st December, 2003 and who will continue to be governed by Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

	(6)	(7)
	till the date of their superannuation.	<b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Age : No	One year for direct recruits.
(i) Post-Graduate degree in Chemistry with specialisation in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent; and (ii) Twelve years research/practical/teaching experience at degree level in Bio-Chemistry, Or (i) Doctorate in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent; and (ii) Seven years research/practical/teaching experience at degree level in Bio-Chemistry.	<b>Educational Qualifications :</b> Yes. However, these educational qualifications will not apply to the existing incumbents holding the post of Assistant Professor (Bio-Chemistry) on regular basis on the date of notification of these rules.	
<b>Desireable :</b>		
(i) Research experience in Carbohydrate Chemistry. (ii) Experience of guiding research work.		
<b>Note 1:—</b> Qualifications are relaxable, at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.		
<b>Note 2:—</b> The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled up by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made

(11)	(12)
<b>Composite method :</b> Deputation (including short-term contract) plus Promotion failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation (including short-term contract) Plus Promotion :</b></p> <p>1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory organisations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 or equivalent in the parent Cadre/Department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent Cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>2. The Departmental Assistant Professor (Bio-Chemistry) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200 with ten years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected, for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1.</b>—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2.</b>—Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—</b>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.
1. Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	
—Chairman	
2. Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	
—Member	
3. Director, National Sugar Institute, Kanpur	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Professor (Bio-Chemistry)	01* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Yes, but the benefit will not be admissible to the employees who entered in-to Government service on or before 31st December, 2003 and who will continue to be governed by Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 till the date of their superannuation.	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Age : No.	One year for direct recruits.
(i) Post Graduate degree in Chemistry with specialisation in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent; and	Educational Qualifications : Yes. However, these educational qualifications will not apply to the existing incumbent holding the post of Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry) on the date of notification of these rules.	
(ii) Five years research/practical/teaching experience at degree level in Bio-Chemistry.		
Or		
(i) Doctorate in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent; and		
(ii) Three years research/practical/teaching experience at degree level in Bio-Chemistry.		
<b>Desirable :</b>		
(i) Research experience in Carbohydrate Chemistry.		
(ii) Experience of guiding research work.		
<b>Note 1:</b> —Qualifications are relaxable, at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		

(8)	(9)	(10)
<p><b>Note 2:</b>—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		
(11)	(12)	
<p><b>Composite Method :</b> Deputation (including short-term contract) plus Promotion failing which by direct recruitment.</p>	<p><b>Deputation (including short-term contract) plus Promotion :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Recognised Research Institutes/Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations:—               <ol style="list-style-type: none"> <li>holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</li> <li>with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000 13500 or equivalent in the parent cadre/department; and</li> </ol> </li> <li>possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).</li> <li>The Departmental Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry) in the scale of pay of Rs. 8000 13500 with five years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</li> </ol> <p><b>Note 1</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2</b> Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
(13)	(14)	
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—</b></p>		<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>
<p>1. Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</p>	<p>—Chairman</p>	
<p>2. Director/Deputy Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</p>	<p>—Member</p>	
<p>3. Director, National Sugar Institute, Kanpur</p>	<p>—Member</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry)	01* (2006) *Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Age : No.	One year for direct recruits.
(i) Post Graduate degree in Chemistry with specialisation in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent; and	Educational Qualifications : Yes. However, these educational qualifications will not apply to the existing incumbents holding the post of Research Assistant (Bio-Chemistry) on the date of notification of these rules.	
(ii) Three years research/teaching experience at degree level in Bio-Chemistry, Or Doctorate in Bio-Chemistry from a recognised University or equivalent.		
<b>Desirable :</b>		
1. Research experience in Carbohydrate Chemistry.		
2. Experience of guiding research work.		
<b>Note 1:—</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.		
<b>Note 2:—</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled		

(8)	(9)	(10)
<p>Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		
(11)	(12)	
<p><b>Composite Method :</b> Deputation (including short-term contract) plus promotion failing which by direct recruitment.</p>	<p><b>Deputation (including short-term contract) plus Promotion :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory organisations :—             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or</li> <li>(ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or</li> <li>(iii) with thirteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000, or equivalent in the parent Cadre/Department; and</li> </ol> </li> <li>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Departmental Research Assistant (Bio-Chemistry) in the scale of pay of Rs. 4500-7000 with thirteen years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</li> </ol> <p><b>Note 1.</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</li> </ol>	
(13)		(14)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</li> <li>Director/Deputy Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</li> <li>Director, National Sugar Institute, Kanpur</li> </ol>	<p>—Chairman</p> <p>—Member</p> <p>—Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

**Footnote :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 1036, dated the 13th July, 1964 and subsequently amended *vide* :—

1. G.S.R. 1150 dated the 6th August, 1964
2. G.S.R. 1364 dated the 15th September, 1964
3. G.S.R. 1436 dated the 23rd September, 1964
4. G.S.R. 179 dated the 21st January, 1965
5. G.S.R. 306 dated the 20th February, 1965
6. G.S.R. 1279 dated the 23rd August, 1965
7. G.S.R. 233 dated the 4th February, 1966
8. G.S.R. 234 dated the 4th February, 1966
9. G.S.R. 899 dated the 3rd June, 1966
10. G.S.R. 1745 dated the 5th November, 1966
11. G.S.R. 1805 dated the 16th November, 1966
12. G.S.R. 1140 dated the 15th July, 1967
13. G.S.R. 278 dated the 10th February, 1971
14. G.S.R. 640 dated the 13th April, 1971
15. G.S.R. 925 dated the 21st May, 1971
16. G.S.R. 1612 dated the 7th September, 1971
17. G.S.R. 85 dated the 29th December, 1975
18. G.S.R. 1755 dated the 24th November, 1976
19. G.S.R. 79 dated the 16th December, 1976
20. G.S.R. 339 dated the 25th February, 1977
21. G.S.R. 1729 dated the 14th December, 1977
22. G.S.R. 523 dated the 30th March, 1978
23. G.S.R. 566 dated the 17th April, 1978
24. G.S.R. 567 dated the 17th April, 1978
25. G.S.R. 1340 dated the 21st October, 1978
26. G.S.R. 149 dated the 5th January, 1979
27. G.S.R. 277 dated the 5th February, 1979
28. G.S.R. 278 dated the 5th February, 1979
29. G.S.R. 1472 dated the 23rd November, 1979
30. G.S.R. 389 dated the 21st March, 1980
31. G.S.R. 390 dated the 21st March, 1980
32. G.S.R. 1274 dated the 26th November, 1980
33. G.S.R. 445 dated the 20th April, 1981
34. G.S.R. 838 dated the 25th August, 1981
35. G.S.R. 969 dated the 12th October, 1981
36. G.S.R. 628 dated the 1st July, 1982
37. G.S.R. 279 dated the 14th March, 1983
38. G.S.R. 524 dated the 1st July, 1983
39. G.S.R. 855 dated the 5th November, 1983
40. G.S.R. 875 dated the 8th November, 1983
41. G.S.R. 232 dated the 18th February, 1984
42. G.S.R. 487 dated the 21st April, 1984
43. G.S.R. 825 dated the 20th July, 1984
44. G.S.R. 3 dated the 20th November, 1984
45. G.S.R. 145 dated the 22nd January, 1985
46. G.S.R. 65 dated the 9th January, 1986
47. G.S.R. 447 dated the 22nd May, 1987
48. G.S.R. 717 dated the 16th September, 1987
49. G.S.R. 807 dated the 14th October, 1987
50. G.S.R. 152 dated the 9th January, 1988
51. G.S.R. 3 dated the 22nd December, 1988
52. G.S.R. 741 dated the 19th September, 1989
53. G.S.R. 288 dated the 17th April, 1990
54. G.S.R. 200 dated the 22nd April, 1992
55. G.S.R. 623 dated the 2nd December, 1993
56. G.S.R. 436 dated the 8th August, 1994
57. G.S.R. 548 dated the 25th October, 1994
58. G.S.R. 560 dated the 25th October, 1994
59. G.S.R. 561 dated the 25th October, 1994
60. G.S.R. 604 dated the 17th November, 1994
61. G.S.R. 6 dated the 21st December, 1994
62. G.S.R. 66 dated the 30 December, 1994
63. G.S.R. 67 dated the 30th December, 1994
64. G.S.R. 58 dated the 24th January, 1995
65. G.S.R. 444 dated the 15th September, 1995
66. G.S.R. 578 dated the 14th December, 1995
67. G.S.R. 184 dated the 2nd April, 1996
68. G.S.R. 303 dated the 1st July, 1996
69. G.S.R. 337 dated the 22nd July, 1996
70. G.S.R. 445 dated the 30th September, 1996
71. G.S.R. 515 dated the 6th November, 1996
72. G.S.R. 584 dated the 11th December, 1996
73. G.S.R. 138 dated the 25th June, 1998
74. G.S.R. 205 dated the 15th October, 1998
75. G.S.R. 635 dated the 30th August, 2001
76. G.S.R. 79 dated the 4th February, 2002
77. G.S.R. 404 dated the 3rd June, 2002
78. G.S.R. 683 dated the 25th August, 2003
79. G.S.R. 209(E) dated the 10th March, 2003
80. G.S.R. 234 dated the 30th May, 2003
81. G.S.R. 574(E) dated the 8th September, 2004
82. G.S.R. 407(E) dated the 14th June, 2005
83. G.S.R. 722(E) dated the 14th December, 2005
84. G.S.R. 326(E) dated the 26th May, 2006